

अंतर्मुखता की भट्टी

(अव्यक्त मुरली 25.11.2018)

शक्तिशाली योग भट्टी के 21 घटक

01. शक्तिशाली लक्ष्य
02. शक्तिशाली और निर्धारित दिनचर्या
03. शक्तिशाली योगाभ्यास
04. शक्तिशाली ज्ञान चिंतन
05. शक्तिशाली और दृढ़ संकल्प
06. शक्तिशाली क्लासेस और क्लास करनेवाले
07. शक्तिशाली वातावरण
08. शक्तिशाली लेखन
09. शक्तिशाली परमात्म प्रेम के गीत
10. शक्तिशाली मेडिटेशन म्यूजिक
11. शक्तिशाली मौन, एकाग्रता और एकांत
12. शक्तिशाली सात्विक हल्का भोजन
13. शक्तिशाली साउंड रात्रि नींद
14. शक्तिशाली स्फिरिचुअल एक्टिविटी
15. शक्तिशाली स्फिरिचुअल ड्रिल और कमेंट्री
16. शक्तिशाली ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति

17. शक्तिशाली निसर्ग का सानिध्य

18. शक्तिशाली आत्म निरीक्षण, आत्म अवलोकन

19. शक्तिशाली वृत्ति

20. शक्तिशाली संगठन

21. शक्तिशाली स्वमान

शक्तिशाली महा योगी भव !

ओम शान्ति